



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 763) पटना, मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

07 सितम्बर, 2022

सं० नि.प्रा./विधि 1-23/2021-1686—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-78 दिनांक 11.01.2021 द्वारा अन्य समितियों के साथ गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत बड़हरा पैक्स के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 393 दिनांक 13.02.2021 द्वारा स्थगित किया गया था। निर्वाचन स्थगित करने के पूर्व सूचना का प्रकाशन, नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की प्रक्रियाएँ संपन्न हो चुकी थी।

उक्त के आलोक में बड़हरा पैक्स के चुनाव को अधिसूचना संख्या-78 दिनांक 11.01.2021 के क्रम में स्थगन के प्रक्रम से निम्नवत निर्धारित किया जाता है।

(i)	मतदान, अगर आवश्यक हो	20.09.2022 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(ii)	मतगणना	20.09.2022 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(iii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	22.09.2022 (गुरुवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में बड़हरा पैक्स के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, डोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 14.09.2022 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाइट पर <http://bsea.bihar.gov.in> प्रपत्र-ई 18 को अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

5. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 22.09.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122.129 पर देखा जा सकता है।

6. अधिसूचना संख्या 78 दिनांक 11.01.2021 की शेष बातें यथावत रहेगी।

आदेश से,
पुरुषोत्तम पासवान,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 763-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>